

February 06, 2018

National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, C-1 Block G,
BandraKurla Complex Bandra [E],
Mumbai – 400 051

BSE Ltd., PhirozeJeejeebhoy
Towers, Dalal Street,
Mumbai - 400001

**Metropolitan Stock Exchange of
India Ltd.,** Vibgyor Towers,
4th Floor, Plot No. C62,
G - Block, Opp. Trident Hotel,
BandraKurla, Complex, Bandra (E),
Mumbai – 400 098

Scrip Code: Reference: NSE Scrip Symbol: BLS; BSE Scrip Code: 540073; MSEI Scrip Symbol: BLS

Subject: Publication in Newspaper Notice of Board Meeting under Regulation 47 (1) (a) of SEBI (LODR), Regulations, 2015

Dear Sir / Madam,

Please find attached herewith copies of the Newspaper Advertisement of Board Meeting Notice of the Company published on 6th February, 2018 in The Financial Express (English edition) & Jansatta Express (Hindi edition).

The aforesaid Newspaper clippings are also uploaded on Company's website.

You are requested to take the same on your records.

For BLS International Services Limited



Bala Ji
Company Secretary
M. No. A33952



Encl: Newspaper clipping- Financial Express
Newspaper clipping- Jansatta Express

05.02.2018 to 16.02.2018 (both days inclusive) for the directors/officers/designated persons of the Company.
 For Shantnu Investments (India) Limited
 Sd/-
 Sugandha Khandelwal
 Company Secretary
 M. No. :- A48323
 Date : 05.02.2018
 Place : New Delhi

CAPITAL TRADE LINKS LIMITED
 Registered Office: B-4, LGF, Ashoka Niketan, Delhi-110092
 CIN: L51909DL1984PLC019622
 Phones: 91-11-2214472/43095064
 E-mail: info@capitaltrade.in;
 Website: www.capitaltrade.in

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday 14th February, 2018 at 4.00 P.M. at the registered office of the Company to consider, approve inter-alia to take on record of the Unaudited Financial Results for the Quarter ended 31st December, 2017 and to consider any other matter with the permission of Chairman.

Further in accordance with the Company's code of Conduct & pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the Trading Window for dealing in Securities of the Company shall remain closed w.e.f. 9th day of February, 2018 to 16th day of February, 2018 (both days inclusive).

By the order of Board
 For Capital Trade Links Limited
 Sd/-
 Place: Delhi Hariom Sharma
 Date: 05.02.2018 Company Secretary

BLS INTERNATIONAL SERVICES LIMITED

Regd Office : G-4B-1, Extension Mohan Co-operative Indl. Estate, Mathura Road, New Delhi - 110044
 CIN : L51909DL1983PLC016907
 Website : http://www.blsinternational.com
 Email : compliance@blsinternational.net;
 Contact no. +91 11-46890006, Fax: +91 11-23755284

NOTICE

Pursuant to Provisions of Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 13th February 2018 at 3:30 P.M. at 1st Floor, Vijaya Building, 17, Barakhamba Road, New Delhi - 110001 inter-alia, to consider and approve the Un-audited Quarterly Financial Results for the Third Quarter ended 31st December 2017.

Pursuant to provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 the Trading Window for dealing the securities of the Company will remain closed for Directors, Officers and Designated Employees of the Company as defined in the Code from 4:00 pm on 5th February 2018 and will end 48 hours after the Third Quarter financial results are made public on 13th February 2018.

The information contained in this Notice is also available on the Company's website www.blsinternational.com and on the website of National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) www.nseindia.com BSE Limited www.bseindia.com and Metropolitan Stock Exchange of India Ltd. www.mseil.in.

By Order of the Board
 For BLS-International Services Ltd.
 Sd/-
 Shikhar Aggarwal
 (Joint Managing Director)
 Place: New Delhi (Joint Managing Director)
 Date: 05.02.2018 DIN: 06975729

09688 Email- ganesh.oati@c1india.com, Hareesh auctions.com For uploading on online web portal mails as mentioned above, during office hours on any

permitted to participate in the on line e-auction. The one or cancel or adjourn or discontinue the Auction or his decision in this regard shall be final. and for another 5 minutes.

to the reserve price) shall be declared as successful including earnest money already paid) from knocking

be subject to terms and conditions of E-auction and

balance Sale Price within 15 (Fifteen) days of sale and the Authorized Officer shall be free to exercise

powers or guarantors, at any time on or before the date of the purchase.

charge, lien, encumbrances, or any other dues to the extent inquiries regarding the encumbrances on the property arising out of the said sale or in future) so shall have no liability in respect of any such demand

internet failure, power failure or technical reasons or

will be responsible for any failure/lapse (Power failure, arrangements/alternatives such as backup power the new interoperability guidelines released by the rated on a new algorithm, SHA2. Also, the Digital assure that they have Windows XP (SP3)/Windows the SSL patch, which is available at our download

TOR/MORTGAGOR
 in full before the date of auction failing which the

Authorized Officer, Bank of Baroda

Certified True Copy
 For BLS International Services Limited

Company Secretary

Notice regarding Possession of Immovable Property u/s 13(4) of SARFAESI Act, 2002 read with Rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Kotak Mahindra Bank Ltd. a banking company within the meaning of the Banking Regulation Act, 1949 having its Registered Office at 27BKC, C-27, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 and branch office at Ambadeep Building, 7th Floor, 14 KG Marg, Cannanught Place, New Delhi-110001, under Section 13(4) and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act) and in exercise of the powers conferred under sections 13(2) and 13(12) read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice dated 31.05.2017 in loan Account No.0205FC0208000001 calling upon the parties (1) Mrs. Dhawan Creative Prints Pvt. Ltd. (Borrower) (2) Mr. Gurucharan Singh (Guarantor & Property owner) (3) Mr. Jagmohan Singh (Guarantor) to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 1,98,26,435.06 (Amount) (Rupees One Crore Ninety Eight Lakhs Twenty Six Thousand Four Hundred Thirty Five and Paise Six Only) on 31.05.2017 together with further interest and other charges thereon at the contractual rates upon the footing of compound interest from 01.06.2017 till its actual realization (outstanding amount) within 60 days from the date of the said Demand Notice.

The aforementioned Borrower/Guarantor/Mortgagor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Guarantor/Mortgagor and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the SARFAESI Act read with Rule 8 of the above said Rules on this 1st Feb 2018.

The Borrower/Guarantor/Mortgagor mentioned hereinabove in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be at their own risk.

Whereas the undersigned being the
 Appendix IV (Sec
 POSSESSION NOTICE (E
 BRANCH OFFICE: DILSHAD GARDEN, G-10
 1911 st street, New Delhi
 Central Ba
 Date : February 05, 2018
 Place : Mumbai

NOTES:
 1. The above is an extract of the detailed format of the format of the Quarterly/Annual Report of the Company as per Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Report is available on the Exchange website <http://www.bseindia.com> and <http://www.nseindia.com>.
 2. The above results have been taken on record by the Officer (M) KAS, Mumbai on 05.02.2018. The statutory auditors have expressed their opinion thereon in their report dated 05.02.2018.

